



Asmita

22 Jun 1999

09:09 PM

Jammu

Model: Web-MyKundli

Order No: 121199201

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 22/06/1999
दिन _____: मंगलवार
जन्म समय _____: 21:09:00 घंटे
इष्ट _____: 39:24:07 घटी
स्थान _____: Jammu
राज्य _____: Jammu and Kashmi
देश _____: India

अक्षांश _____: 32:42:00 उत्तर
रेखांश _____: 74:52:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:30:32 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 20:38:28 घंटे
वेलान्तर _____: -00:01:50 घंटे
साम्पातिक काल _____: 14:39:59 घंटे
सूर्योदय _____: 05:23:21 घंटे
सूर्यास्त _____: 19:41:24 घंटे
दिनमान _____: 14:18:03 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: वर्षा
सूर्य के अंश _____: 06:56:32 मिथुन
लग्न के अंश _____: 29:43:49 धनु

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: धनु - गुरु
राशि-स्वामी _____: कन्या - बुध
नक्षत्र-चरण _____: चित्रा - 2
नक्षत्र स्वामी _____: मंगल
योग _____: परिघ
करण _____: तैतिल
गण _____: राक्षस
योनि _____: व्याघ्र
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: वैश्य
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: भूमि
जन्म नामाक्षर _____: पो-पोशाली
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कर्क

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1921	आषाढ़	1
पंजाबी	संवत : 2056	आषाढ़	8
बंगाली	सन् : 1406	आषाढ़	7
तमिल	संवत : 2056	आनी	8
केरल	कोल्लम : 1174	मिथुनम	7
नेपाली	संवत : 2056	आषाढ़	8
चैत्रादि	संवत : 2056	ज्येष्ठ	शुक्ल 9
कार्तिकादि	संवत : 2056	ज्येष्ठ	शुक्ल 9

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 13:51:34
जन्म तिथि _____ : 10
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : हस्त
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 11:14:48 घंटे
जन्म योग _____ : चित्रा
सूर्योदय कालीन योग _____ : वरियान
योग समाप्ति काल _____ : 11:27:49 घंटे
जन्म योग _____ : परिघ
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 13:51:34 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 24:45:28
भभोग _____ : 66:27:11
भोग्य दशा काल _____ : मंगल 4 वर्ष 4 मा 17 दि

घात चक्र

मास _____ : भाद्रपद
तिथि _____ : 5-10-15
दिन _____ : शनिवार
नक्षत्र _____ : श्रवण
योग _____ : शुक्ल
करण _____ : कौलव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : मीन
सूर्य _____ : मेष
चन्द्र _____ : वृश्चिक
मंगल _____ : वृष
बुध _____ : मीन
गुरु _____ : मिथुन
शुक्र _____ : कर्क
शनि _____ : मीन
राहु _____ : सिंह

Marg Darshan jyotish kendra


Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599


ashutoshpandey698@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

	श गु		सू
			रा बु शु
के			
ल		मं	चं

लग्न कुण्डली

	श गु		
सू			
रा बु शु			के
		मं	ल

विंशोत्तरी
मंगल 4वर्ष 4मा 17दि
मंगल

22/06/1999

09/11/2116

मंगल	08/11/2003
राहु	08/11/2021
गुरु	08/11/2037
शनि	08/11/2056
बुध	08/11/2073
केतु	08/11/2080
शुक्र	09/11/2100
सूर्य	09/11/2106
चन्द्र	09/11/2116

योगिनी

मंगला 0वर्ष 7मा 15दि
सिद्धा

06/02/2020

06/02/2027

सिद्धा	17/06/2021
संकटा	06/01/2023
मंगला	18/03/2023
पिंगला	07/08/2023
धान्या	07/03/2024
भामरी	16/12/2024
भद्रिका	07/12/2025
उल्का	06/02/2027

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न		धनु	29:43:49	389:49:14	उत्तराषाढा	1	21	गुरु	सूर्य	राहु	---
सूर्य		मिथु	06:56:32	00:57:14	आर्द्रा	1	6	बुध	राहु	राहु	सम राशि
चंद्र		कन्या	28:19:20	12:03:23	चित्रा	2	14	बुध	मंगल	शनि	मित्र राशि
मंगल		तुला	02:41:20	00:13:05	चित्रा	3	14	शुक्र	मंगल	शुक्र	सम राशि
बुध		कर्क	01:26:50	01:16:22	पुनर्वसु	4	7	चंद्र	गुरु	राहु	शत्रु राशि
गुरु		मेष	05:12:33	00:10:12	अश्विनी	2	1	मंगल	केतु	मंगल	मित्र राशि
शुक्र		कर्क	21:48:05	00:51:30	आश्लेषा	2	9	चंद्र	बुध	सूर्य	शत्रु राशि
शनि		मेष	19:34:21	00:06:01	भरणी	2	2	मंगल	शुक्र	राहु	नीच राशि
राहु	व	कर्क	20:05:22	00:03:38	आश्लेषा	2	9	चंद्र	बुध	शुक्र	शत्रु राशि
केतु	व	मक	20:05:22	00:03:38	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	केतु	शत्रु राशि
हर्ष	व	मक	22:33:17	00:01:26	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	शुक्र	---
नेप	व	मक	09:58:48	00:01:17	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	शुक्र	---
प्लूटो	व	वृश्चि	14:41:17	00:01:29	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	राहु	---
दशम भाव		तुला	18:35:50	--	स्वाति	--	15	शुक्र	राहु	चंद्र	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:50:47


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	धनु 17:52:30	धनु 29:43:49
2	मकर 17:52:30	कुम्भ 06:01:10
3	कुम्भ 24:09:50	मीन 12:18:30
4	मेष 00:27:10	मेष 18:35:50
5	वृष 00:27:10	वृष 12:18:30
6	वृष 24:09:50	मिथुन 06:01:10
7	मिथुन 17:52:30	मिथुन 29:43:49
8	कर्क 17:52:30	सिंह 06:01:10
9	सिंह 24:09:50	कन्या 12:18:30
10	तुला 00:27:10	तुला 18:35:50
11	वृश्चिक 00:27:10	वृश्चिक 12:18:30
12	वृश्चिक 24:09:50	धनु 06:01:10


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	धनु	29:43:49
2	कुम्भ	09:50:21
3	मीन	18:07:56
4	मेष	18:35:50
5	वृष	13:06:25
6	मिथुन	05:26:27
7	मिथुन	29:43:49
8	सिंह	09:50:21
9	कन्या	18:07:56
10	तुला	18:35:50
11	वृश्चिक	13:06:25
12	धनु	05:26:27


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण
धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी
मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : मंगल 4 वर्ष 4 मास 17 दिन

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
22/06/1999	08/11/2003	08/11/2021	08/11/2037	08/11/2056
08/11/2003	08/11/2021	08/11/2037	08/11/2056	08/11/2073
00/00/0000	राहु 22/07/2006	गुरु 27/12/2023	शनि 11/11/2040	बुध 06/04/2059
00/00/0000	गुरु 14/12/2008	शनि 09/07/2026	बुध 22/07/2043	केतु 03/04/2060
22/06/1999	शनि 21/10/2011	बुध 14/10/2028	केतु 30/08/2044	शुक्र 01/02/2063
शनि 09/05/2000	बुध 10/05/2014	केतु 20/09/2029	शुक्र 30/10/2047	सूर्य 09/12/2063
बुध 06/05/2001	केतु 28/05/2015	शुक्र 21/05/2032	सूर्य 11/10/2048	चंद्र 09/05/2065
केतु 02/10/2001	शुक्र 28/05/2018	सूर्य 09/03/2033	चंद्र 13/05/2050	मंगल 07/05/2066
शुक्र 03/12/2002	सूर्य 22/04/2019	चंद्र 09/07/2034	मंगल 21/06/2051	राहु 23/11/2068
सूर्य 09/04/2003	चंद्र 20/10/2020	मंगल 15/06/2035	राहु 27/04/2054	गुरु 01/03/2071
चंद्र 08/11/2003	मंगल 08/11/2021	राहु 08/11/2037	गुरु 08/11/2056	शनि 08/11/2073

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
08/11/2073	08/11/2080	09/11/2100	09/11/2106	09/11/2116
08/11/2080	09/11/2100	09/11/2106	09/11/2116	00/00/0000
केतु 06/04/2074	शुक्र 09/03/2084	सूर्य 26/02/2101	चंद्र 10/09/2107	मंगल 07/04/2117
शुक्र 06/06/2075	सूर्य 09/03/2085	चंद्र 28/08/2101	मंगल 10/04/2108	राहु 25/04/2118
सूर्य 12/10/2075	चंद्र 08/11/2086	मंगल 03/01/2102	राहु 10/10/2109	गुरु 01/04/2119
चंद्र 12/05/2076	मंगल 08/01/2088	राहु 27/11/2102	गुरु 09/02/2111	शनि 23/06/2119
मंगल 08/10/2076	राहु 08/01/2091	गुरु 16/09/2103	शनि 09/09/2112	00/00/0000
राहु 27/10/2077	गुरु 08/09/2093	शनि 28/08/2104	बुध 08/02/2114	00/00/0000
गुरु 03/10/2078	शनि 08/11/2096	बुध 04/07/2105	केतु 09/09/2114	00/00/0000
शनि 12/11/2079	बुध 09/09/2099	केतु 09/11/2105	शुक्र 10/05/2116	00/00/0000
बुध 08/11/2080	केतु 09/11/2100	शुक्र 09/11/2106	सूर्य 09/11/2116	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल मंगल 4 वर्ष 4 मा 21 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

गुरु - शनि	गुरु - बुध	गुरु - केतु	गुरु - शुक्र	गुरु - सूर्य
27/12/2023	09/07/2026	14/10/2028	20/09/2029	21/05/2032
09/07/2026	14/10/2028	20/09/2029	21/05/2032	09/03/2033
शनि 22/05/2024	बुध 04/11/2026	केतु 03/11/2028	शुक्र 02/03/2030	सूर्य 05/06/2032
बुध 30/09/2024	केतु 22/12/2026	शुक्र 30/12/2028	सूर्य 19/04/2030	चंद्र 29/06/2032
केतु 23/11/2024	शुक्र 09/05/2027	सूर्य 16/01/2029	चंद्र 09/07/2030	मंगल 16/07/2032
शुक्र 26/04/2025	सूर्य 19/06/2027	चंद्र 14/02/2029	मंगल 04/09/2030	राहु 29/08/2032
सूर्य 11/06/2025	चंद्र 27/08/2027	मंगल 05/03/2029	राहु 28/01/2031	गुरु 07/10/2032
चंद्र 27/08/2025	मंगल 15/10/2027	राहु 26/04/2029	गुरु 07/06/2031	शनि 22/11/2032
मंगल 20/10/2025	राहु 16/02/2028	गुरु 10/06/2029	शनि 08/11/2031	बुध 03/01/2033
राहु 08/03/2026	गुरु 05/06/2028	शनि 03/08/2029	बुध 25/03/2032	केतु 20/01/2033
गुरु 09/07/2026	शनि 14/10/2028	बुध 20/09/2029	केतु 21/05/2032	शुक्र 09/03/2033
गुरु - चंद्र	गुरु - मंगल	गुरु - राहु	शनि - शनि	शनि - बुध
09/03/2033	09/07/2034	15/06/2035	08/11/2037	11/11/2040
09/07/2034	15/06/2035	08/11/2037	11/11/2040	22/07/2043
चंद्र 19/04/2033	मंगल 29/07/2034	राहु 25/10/2035	शनि 01/05/2038	बुध 30/03/2041
मंगल 17/05/2033	राहु 19/09/2034	गुरु 19/02/2036	बुध 04/10/2038	केतु 26/05/2041
राहु 30/07/2033	गुरु 03/11/2034	शनि 07/07/2036	केतु 07/12/2038	शुक्र 06/11/2041
गुरु 02/10/2033	शनि 27/12/2034	बुध 08/11/2036	शुक्र 08/06/2039	सूर्य 25/12/2041
शनि 19/12/2033	बुध 13/02/2035	केतु 29/12/2036	सूर्य 02/08/2039	चंद्र 17/03/2042
बुध 26/02/2034	केतु 05/03/2035	शुक्र 24/05/2037	चंद्र 01/11/2039	मंगल 14/05/2042
केतु 26/03/2034	शुक्र 01/05/2035	सूर्य 07/07/2037	मंगल 04/01/2040	राहु 08/10/2042
शुक्र 15/06/2034	सूर्य 18/05/2035	चंद्र 18/09/2037	राहु 17/06/2040	गुरु 16/02/2043
सूर्य 09/07/2034	चंद्र 15/06/2035	मंगल 08/11/2037	गुरु 11/11/2040	शनि 22/07/2043
शनि - केतु	शनि - शुक्र	शनि - सूर्य	शनि - चंद्र	शनि - मंगल
22/07/2043	30/08/2044	30/10/2047	11/10/2048	13/05/2050
30/08/2044	30/10/2047	11/10/2048	13/05/2050	21/06/2051
केतु 15/08/2043	शुक्र 11/03/2045	सूर्य 17/11/2047	चंद्र 29/11/2048	मंगल 05/06/2050
शुक्र 21/10/2043	सूर्य 07/05/2045	चंद्र 16/12/2047	मंगल 01/01/2049	राहु 05/08/2050
सूर्य 10/11/2043	चंद्र 12/08/2045	मंगल 05/01/2048	राहु 29/03/2049	गुरु 28/09/2050
चंद्र 14/12/2043	मंगल 18/10/2045	राहु 26/02/2048	गुरु 14/06/2049	शनि 01/12/2050
मंगल 07/01/2044	राहु 10/04/2046	गुरु 12/04/2048	शनि 14/09/2049	बुध 27/01/2051
राहु 07/03/2044	गुरु 11/09/2046	शनि 06/06/2048	बुध 05/12/2049	केतु 20/02/2051
गुरु 30/04/2044	शनि 13/03/2047	बुध 25/07/2048	केतु 07/01/2050	शुक्र 28/04/2051
शनि 03/07/2044	बुध 24/08/2047	केतु 15/08/2048	शुक्र 14/04/2050	सूर्य 19/05/2051
बुध 30/08/2044	केतु 30/10/2047	शुक्र 11/10/2048	सूर्य 13/05/2050	चंद्र 21/06/2051

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	4
भाग्यांक	2
मित्र अंक	1, 4, 6, 2
शत्रु अंक	3, 7, 8
शुभ वर्ष	22,31,40,49,58
शुभ दिन	रवि, गुरु, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, गुरु, मंगल
मित्र राशि	वृष, मिथुन
मित्र लग्न	मीन, सिंह, तुला
अनुकूल देवता	गणेश
शुभ रत्न	पुखराज
शुभ उपरत्न	सुनहला, पीला हकीक
भाग्य रत्न	माणिक्य
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	पीत
शुभ दिशा	पूर्वोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प
दान अन्न	दाल चना
दान द्रव्य	घी

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599


ashutoshpandey698@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	100%	सन्तति सुख, स्वास्थ्य, सुख
माणिक्य	सूर्य	81%	दम्पति, भाग्योदय
मूंगा	मंगल	70%	धनार्जन, सन्तति सुख, कम खर्च
लहसुनिया	केतु	70%	धन, सन्तति सुख
नीलम	शनि	62%	सन्तति सुख, धन, पराक्रम
गोमेद	राहु	31%	दुर्घटना, व्यावसायिक हानि
मोती	चंद्र	9%	व्यावसायिक हानि, दुर्घटना
पन्ना	बुध	9%	दुर्घटना, दाम्पत्य कष्ट, व्यावसायिक हानि
हीरा	शुक्र	0%	दुर्घटना, शत्रु व रोग, हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
मंगल	08/11/2003	88%	22%	83%	0%	100%	0%	62%	6%	77%
राहु	08/11/2021	69%	0%	58%	9%	100%	12%	69%	53%	58%
गुरु	08/11/2037	88%	22%	77%	0%	100%	0%	62%	31%	70%
शनि	08/11/2056	69%	0%	58%	22%	100%	12%	75%	44%	58%
बुध	08/11/2073	88%	0%	70%	34%	100%	12%	62%	31%	70%
केतु	08/11/2080	69%	0%	77%	9%	100%	12%	50%	6%	83%
शुक्र	09/11/2100	69%	0%	70%	22%	100%	25%	69%	44%	77%
सूर्य	09/11/2106	94%	22%	77%	9%	100%	0%	50%	6%	58%
चंद्र	09/11/2116	88%	34%	70%	22%	100%	0%	62%	6%	58%

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	22/06/1999-07/06/2000	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	01/11/2006-10/01/2007	16/07/2007-10/09/2009	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	10/09/2009-15/11/2011	16/05/2012-04/08/2012	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	15/11/2011-16/05/2012	04/08/2012-02/11/2014	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	26/01/2017-21/06/2017	26/10/2017-24/01/2020	-----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	03/06/2027-20/10/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	27/08/2036-22/10/2038	05/04/2039-13/07/2039	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	28/01/2041-06/02/2041	26/09/2041-11/12/2043	23/06/2044-30/08/2044
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	08/12/2046-06/03/2049	10/07/2049-04/12/2049	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	13/10/2065-03/02/2066	03/07/2066-30/08/2068	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	04/11/2070-05/02/2073	31/03/2073-23/10/2073	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	16/01/2076-11/07/2076	11/10/2076-15/01/2079	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	सम	सन्तति कष्ट
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	बदनामी
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	शुभ	व्यावसाय
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	धनार्जन
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	स्वास्थ्य

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति एकादश भाव में है। यह भाव आय समृद्धि आदि का प्रतिनिधि भाव है। अतः इसके प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी तथा प्रचुर मात्रा में धन एवं लाभ अर्जित होता रहेगा। साथ ही आपके आय स्रोत भी एक से अधिक रहेंगे। जिससे धनऐश्वर्य से आप सर्वदा युक्त रहेंगी। जीवन में जमीन जायदाद से भी आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नित्य लाभ होता रहेगा तथा इसके कय विकय से भी आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करने में समर्थ रहेंगी। समाज में आप एक प्रतिष्ठित महिला होंगी। सभी लोग आपको यथोचित मान सम्मान प्रदान करेंगे। इसके साथ ही किसी विशिष्ट सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार धनऐश्वर्य से युक्त होकर आप अपना जीवन यापन करेंगी।

एकादश भाव से द्वितीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि के प्रभाव से आपकी पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी। यदाकदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद या तनाव भी उत्पन्न होंगे लेकिन इसका प्रभाव अल्प ही रहेगा। वाणी से भी आप यदा कदा कठोरता का प्रदर्शन करेंगी एवं प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने में भी न्यूनाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि से संतति से आप युक्त रहेगी लेकिन संतति प्राप्ति में किंचित विलम्ब हो सकता है। साथ ही उनसे आपको जीवन में सुख एवं सहयोग भी सामान्य ही प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा को आप परिश्रम पूर्वक प्राप्त करेंगी तथा सरकार या उच्चाधिकारी वर्ग से भी समय समय पर लाभ एवं सहयोग मिलता रहेगा। षष्ठ भाव में मंगल की दृष्टि के प्रभाव से शत्रु वर्ग को पराजित करने में आप समर्थ रहेंगी। साथ ही किसी प्रतियोगी परीक्षा मुकद्दमें या चुनाव आदि में भी आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन शरीर में यदा कदा गर्मी या पित आदि से कोई परेशानी हो सकती है। परन्तु इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। साथ ही मामा आदि से भी सुख सहयोग की न्यूनता रहेगी परन्तु आपका सामान्य जीवन सुखी रहेगा।

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

इस प्रकार आप धनऐश्वर्य एवं वैभव से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे तथा यत्न पूर्वक पारिवारिक जनों को आधुनिक सुख सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी एवं इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही पारिवारिक जनों से भी आपको पूर्ण सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा तथा सभी आपसे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे। अतः आपके परस्पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।



Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराऊंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।
- शुक्र, बुध और राहु 2, 5, 9 या 12 वें भाव में स्थित है।

आपकी कुण्डली में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें। रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ

आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें।

आपकी कुंडली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें। 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें।

आपकी कुंडली में राहु पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ शनिवार गाय को सवा पांच किलो जौ सवा किलो गुड़ में मिलाकर खिलाना चाहिए। सूखे गोले में पंजीरी भरकर काले कपड़े में लपेटकर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबाएं। कबूतरों को दाना, चींटी को आटा तथा मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

मिथुन राशि में रवि हो तो जातक धनवान्, ज्योतिषी, इतिहास प्रेमी उदार, विवेकी, विद्वान्, बुद्धिमान, मधुरभाषी, नम्र एवं प्रेमी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके शुभ प्रभाव से धनलाभ प्राप्त करने में वे सफल होंगे तथा जीवन में सर्वप्रकार से आपकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह कराने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही आप उनकी विश्वास पात्र भी होंगी।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी नित्य रुचिशील रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे सम्बन्धों में क्षणिक तनाव एवं कटुता उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समयोपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगी।

चन्द्र

दसवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कार्यकुशल, व्यापारी, कार्यपरायण, सुखी, यशस्वी, विद्वान्, कुल-दीपक, दयालु, निर्बल बुद्धि, सन्तोषी लोकहितैषी, मानी, प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु होता है।

कन्या राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सुन्दर, रूपवान, धनी ईमानदार, मधुरभाषी, सदाचारी, धीर, विद्वान, सुखी, सुन्दर वक्ता अधिक कन्या सन्तान वाला, ज्योतिष एवं कला प्रेमी होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति दशम भाव में है। अतः माता का आप पूर्ण स्नेह प्राप्त करेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन सम्पत्ति तथा अन्य आवश्यक सुख संसाधनों से वे युक्त रहेंगी तथा जीवन के आवश्यक कार्यों में आपको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आप आजीविका, व्यापार तथा यश प्राप्ति भी उन्हीं के सहयोग से अर्जित करने में सफल होंगी।

आप उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा यदा कदा आपस में सैद्धान्तिक मतभेद होंगे किन्तु उससे आपके संबंधों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी उनकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा हर सम्भव उनका सहयोग करने के लिए तत्पर

रहेंगी। इस प्रकार आप एक दूसरों के लिए सामान्य रूप से शुभ ही समझी जाएंगी।

मंगल

ग्यारवें भाव में मंगल हो तो जातक धैर्यवान्, न्यायवान्, प्रवासी, साहसी, लाभ करने वाला, क्रोधी, झगड़ालू, दम्भी एवं कटुभाषी होता है।

तुला राशि में मंगल हो तो जातक प्रवासी, वक्ता, कामी, परधनहारी, उच्चाकांक्षी, लड़ाकू, कृपालु एवं परस्त्रियों की ओर झुकाव होता है।

आपके जन्म समय में मंगल एकादश में विद्यमान है अतः भाई बहिनों से आप स्नेह एवं सम्मान प्राप्त करेंगी एवं जीवन के शुभ एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनसे पूर्ण सहयोग तथा समयानुसार वांछित सहायता भी अर्जित करेंगी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रायः अच्छा ही रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की भी उनको अनुभूति होगी। आपके आय साधनों की वृद्धि में भी उनका प्रमुख योगदान रहेगा। धन सम्पत्ति से भी वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में सुख दुःख के समय आपकी यथा शक्ति सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे।

आपके अर्न्तमन में उनके प्रति स्नेह भाव रहेगा तथा जीवन में यथाशक्ति उनकी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी ओर से वांछित आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। आपके आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इनमें कटुता का भाव उत्पन्न होगा। परन्तु यह क्षणिक रहेगा। इसके अतिरिक्त आप सुख दुःख में भी अपना योगदान प्रदान करेंगी।

बुध

अष्टमभाव में बुध हो तो जातक दीर्घायु, अभिमानी, राजमान्य, कृषक, लब्धप्रतिष्ठ, मानसिक दुखी, कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान् एवं धर्मात्मा होता है।

कर्क राशि में बुध हो तो जातक नीतिकुशल, सूक्ष्माही, अत्यन्त कामुक, छोटाकदवाला, अनैतिक चरित्र, अनिश्चित स्वभाव, वाचाल, गवैया, परदेशवासी, प्रसिद्ध एवं परिश्रमी होता है।

गुरु

पंचमभाव में गुरु हो तो जातक नीतिविशारद, सन्ततिवान्, सटटे से धन प्राप्त करने वाला, कुलश्रेष्ठ, लोकप्रिय, कुटुम्ब में सबसे ऊँचा स्थान, ज्योतिषी एवं आस्तिक होता है।

मेष राशि में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, वकील, वादी, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, विजयी, उखभाव, धनी, विद्वान, प्रचुर सन्तान, उदार, नम्रभाषी परन्तु अपने आपको दूसरों से उच्च समझने वाला, सुखी विवाहित जीवन एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक ज्योतिषी, क्रोधी, मनस्वी, दुखी, गुप्तरोगी, पर्यटनशील, परस्त्रीरत, विदेशवासी, निर्दयी, गुप्तविद्याओं के प्रतिरुचि एवं रोगी होता है।

कर्क राशि में शुक्र हो तो जातक धार्मिक, ज्ञाता, सुन्दर, सुख और धन का इच्छुक, नीतिज्ञ, आवेशपूर्ण, डरपोक, दुःखी एवं प्रचुर सन्तान होता है।

शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

मेष राशि में शनि हो तो जातक आत्मबलहीन, मूर्ख, आवारा, कूर जालफरेव करने वाला, व्यसनी, निर्धन, दुराचारी, कपटी लम्पट एवं कृतघ्न होता है।

राहु

अष्टम भाव में राहु हो तो जातक क्रोधी, व्यर्थभाषी, मूर्ख, उदररोगी, कामी, पुष्टदेही एवं गुप्तरोगी होता है।

कर्क राशि में राहु हो तो जातक चतुर, उदार, रोगी, अनेकों शत्रुओं वाला, धोखेबाज, धनहीन एवं पराजि होता है।

केतु

द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक अस्वस्था, कटुवचन बोलने वाला, मुंह के रोग, राजभीरु एवं विद्रोही होता है।

मकर राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमशील, पराकमी जन्म स्थान छोड़कर जाने वाला, प्रसिद्ध एवं तेजस्वी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- गुरु
(08/11/2021 - 08/11/2037)

आपकी कुण्डली में बृहस्पति की महादशा 08/11/2021 को आरम्भ तथा 08/11/2037 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 16 वर्ष है। गुरु आपकी जन्मकुण्डली में पाँचवें भाव में स्थित है। पाँचवां भाव संतान, आनन्द, आमोद-प्रमोद, रोमांस, वर्ग-पहेली जैसी प्रतियोगी स्पर्धाओं, लॉटरी, प्रेम-संबंध, अच्छी या बुरी मानसिकता, धार्मिक बौद्धिकता, उच्च शिक्षा तथा सत्ता, विशाल संपत्ति आदि का भाव है। गुरु स्वभावतः एक शुभ ग्रह है। पाँचवें भाव में स्थित यह आपकी कुण्डली के 9वें, 11वें तथा पहले भाव को प्रभावित करता है। 16 साल की यह अवधि आपके लिए शान्तिपूर्ण, समृद्धिदायक तथा कल्याणकारी होगी।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी गुरु पाँचवें भाव में स्थित है। यह एक त्रिकोण है। गुरु का प्रभाव प्रथम भाव (9वें तथा 11वें के अतिरिक्त) पर है जो व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत मामलों के भाव के साथ-साथ एक त्रिकोण और केन्द्र भी है। फलतः आपकी शत्रुओं से रक्षा होगी। किसी बड़ी दुर्घटना की सम्भावना नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे।

अर्थ और सम्पत्ति :

गुरु पाँचवें भाव में स्थित है जो प्रतिस्पर्धा तथा विशाल सम्पत्ति का भाव है। अतः आपको अपनी संपत्ति तथा वित्त को बढ़ाने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

व्यवसाय :

इस दशा काल में आप अत्यन्त ही बुद्धिमान रहेंगे और तर्कशास्त्र तथा कानून में अभिरुचि रहेगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी तथा धनोपार्जन का अवसर मिलेगा।

व्यवसाय के प्रति आपके दिमाग में नई-नई योजनाएँ आएंगी जिनके क्रियान्वित होने पर आपको स्रोत तथा वित्त बढ़ाने का अवसर मिलेगा और समाज का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु के 11वें भाव पर, (9वें तथा पहले भाव के अतिरिक्त) जो आय का भाव है, प्रभाव के फलस्वरूप आपकी आय में वृद्धि होगी।

पारिवारिक जीवन :

गुरु का संबंध दोनों त्रिकोणों के साथ, पाँचवें में स्थित होने तथा 9वें एवं पहले (जो एक त्रिकोण और केंद्र भी है) पर दृष्टि होने से आपका पारिवारिक जीवन काफी उत्साहपूर्ण तथा खुशहाल होगा। आपके जीवनसाथी सहयोगी तथा सहायक होंगे। आपके बच्चे अत्यन्त आज्ञाकारी होंगे। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। पंचम तथा नवम भाव से सम्बद्ध गुरु के कारण इस दशा में अहंकारी होंगे, किन्तु अपनी शिक्षा जारी रखेंगे।



Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

**अंतर्दशा :- गुरु - शनि
(27/12/2023 - 09/07/2026)**

आपकी बृहस्पति की महादशा 08/11/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 12 दिन रहेगी। आपके लिए यह 27/12/2023 को प्रारंभ होकर 09/07/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में आपको संतान से सुख मिलेगा। पारंपरिक निवेश से लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति और माता के माध्यम से आय हो सकती है। सर्जनात्मक कार्य करेंगे। विवाह हो सकता है; जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा संभव है। प्रोन्नति हो सकती है, मगर उच्चाधिकारियों से थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। आय बढ़ सकती है। जीवन अनुशासनपूर्ण रहेगा।

आपके जीवनसाथी का धनार्जन उत्तम होगा। आपके पिता की यात्राएं हो सकती हैं ; सांसारिक मामलों में सफल रहेंगे। माता का धनार्जन उत्तम होगा; घरेलू सुख मिलेगा। आपके भाई-बहनों के लिए कार्यों में सफलता, भाइयों और मित्रों से लाभ, साझेदारी से लाभ, विवाह और यात्रा का संकेत है।

आपकी संतान सब कार्यों में सफल होगी; शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो प्रोन्नति हो सकती है; धनार्जन उत्तम होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है, धन संचित होगा, यात्रा संभव है। परामर्शदाताओं के कार्य में परिवर्तन हो सकता है। व्यापारियों का लाभ उत्तम होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। पाचनतंत्र की मामूली शिकायत हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए शनि मंत्र का जाप करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

**अंतर्दशा :- गुरु - बुध
(09/07/2026 - 14/10/2028)**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 08/11/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तृतीय अंतर्दशा बुध की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 3 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 09/07/2026 को प्रारंभ होकर 14/10/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धि, स्मृति और हाजिरजवाबी का कारक है।

इस अवधि में आप उच्चपद प्राप्त करेंगे, आय अच्छी होगी, सफल और प्रसन्न होंगे। स्वास्थ्य और कार्यक्षमता उत्तम होंगे। जीवनसाथी के माध्यम से लाभ हो सकता है। विरासत से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। ज्ञान-विज्ञान के कामों से संबद्ध हो सकते हैं। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक सुख उत्तम होगा। बहुत से मित्र होंगे जो सहायक सिद्ध

Marg Darshan jyotish kendra

Jora kothi shiv mandir karnibagh B.Deoghar Jharkhand 814143

9955755576/8002006599

ashutoshpandey698@gmail.com

होंगे। उत्तम वस्त्र उपलब्ध होंगे।

आपके जीवनसाथी को धनलाभ उत्तम होगा। पिता के खर्चे बढ़ सकते हैं। माता का पारिवारिक जीवन उत्तम होगा; निवेश से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए स्पर्धियों पर विजय, शिक्षा में सफलता, प्रसिद्धि, कार्यक्षेत्र में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो निवेश और शेयरों से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो सहकर्मी सहयोग करेंगे, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, धनलाभ होगा। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। व्यापारियों को विचार-विनिमय और जनसंपर्क से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गठिया आदि की मामूली शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए दुर्गाजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- गुरु - केतु
(14/10/2028 - 20/09/2029)**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 08/11/2021 प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा केतु की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 14/10/2028 को प्रारंभ होकर 20/09/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु मोक्ष और शल्य चिकित्सा का कारक है।

इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शिक्षा उत्तम होगी। रिश्तेदारों से संबंध उत्तम होंगे। कटु वचन बोलने से बचें। भौतिक सुखों की सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, वसीयत से धनागम हो सकता है। पराविद्या और तंत्र-मंत्र में रुचि हो सकती है। अंतर्ज्ञान शक्ति उत्तम होगी। विदेश जा सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को आर्थिक लाभ होगा। आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा। माता सफल होंगी। आपके भाई-बहनों के लिए शुभ कार्य पर खर्च, उत्तम शिक्षा, माता से मधुर संबंधों का संकेत है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो कार्यों में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल होंगे, चुनाव आदि में जीत होगी। परामर्शदाता भाग्यशाली रहेंगे; धनागम उत्तम होगा। व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ होगा, यात्राएं होंगी।

मुख के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए कुत्ते को भोजन दें।

**अंतर्दशा :- गुरु - शुक्र
(20/09/2029 - 21/05/2032)**

आपके लिए बृहस्पति महादशा 08/11/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा शुक्र की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 20/09/2029 को प्रारंभ होकर 21/05/2032 के समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, सुख और कला का कारक है।

इस अवधि में आपका विवाहित जीवन सुखी रहेगा; समृद्ध बनेंगे। अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, अचानक अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। प्रसन्नचित्त रहेंगे। सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपके जीवनसाथी तंत्र-मंत्र में रुचि ले सकते हैं। आप दान-धर्म और समाजसेवा में रुचि ले सकते हैं। सुंदर वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। बहुमुखी प्रगति का योग है।

आपके जीवनसाथी को विभिन्न माध्यमों से धनार्जन होगा। आपके पिता के खर्च बढ़ सकते हैं मगर धन संचित भी होगा। माता खुश रहेंगी, धनी बनेंगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आपके भाई-बहनों के लिए शत्रुओं पर विजय, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, सुख-साधन, अच्छी आय और उत्तम मित्रों का संकेत है।

आपकी संतान प्रसन्न और संतुष्ट रहेगी, शिक्षा उत्तम होगी, धनी बनेंगे, परिवार से उत्तम संबंध होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो यात्रा होगी, सफल रहेंगे, आय में वृद्धि हो सकती है। परामर्शदाताओं की आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को विभिन्न माध्यमों से धनागम होगा; आय बढ़ेगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। पाचन और उत्सर्जन तंत्र की व्याधियों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।